

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazetteएस.जी.-डी.एल.-अ.-16032024-253146
SG-DL-E-16032024-253146असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102]	नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 16, 2024/फाल्गुन 26, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 479
No. 102]	NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 16, 2024/PHALGUNA 26, 1945	[N. C. T. D. No. 479

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 मार्च, 2024

F.14 (92)/LA-2024/ala1/77-86.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 15th March, 2024 को प्राप्त कर ली है और इसे जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है —

दिल्ली विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 2024
(2024 का दिल्ली अधिनियम 03)(09th March, 2024 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

{ 16 March, 2024 }

वर्ष 2024-2025 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त शीर्षक

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 2) अधिनियम 2024 है।

₹76059,78,28,000/- का वर्ष 2024-2025 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए छिहत्तर हजार उनसठ करोड़ अठहत्तर लाख अट्ठाईस हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2024-2025 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होंगी।

विनियोजन

3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची

(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(₹ हजार में)

निम्नलिखित से अनाधिक राशियाँ

अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
I	II		III	IV	V
1	विधान मंडल	राजस्व	515700	15800	531500
		पूँजी	273500	0	273500
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व	6093630	294900	6388530
		पूँजी	99170	20400	119570
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	22804104	5994201	28798305
		पूँजी	2715014	242095	2957109
4	वित्त	राजस्व	3319000	1100	3320100
		पूँजी	782500	0	782500
5	गृह	राजस्व	11004155	6500	11010655
		पूँजी	1406365	0	1406365
6	शिक्षा	राजस्व	160564075	50500	160614575
		पूँजी	1014725	0	1014725
7	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	राजस्व	76308831	92015	76400846
		पूँजी	2572854	0	2572854
8	समाज कल्याण	राजस्व	111860850	29200	111890050
		पूँजी	7929650	0	7929650
9	उद्योग	राजस्व	3606950	300	3607250
		पूँजी	154450	0	154450

10	विकास	राजस्व	39168725	2320	39171045
		पूँजी	10331869	57000	10388869
11	शहरी विकास और लोक निर्माण	राजस्व	141281000	600	141281600
		पूँजी	74136580	0	74136580
12	ऋण	पूँजी	13000	0	13000
13	पेंशन	राजस्व	30000	0	30000
15	सार्वजनिक ऋण	राजस्व	0	26660900	26660900
		पूँजी	0	49143300	49143300
	योग		677986697	82611131	760597828

मनमीत सिंह वालिया, संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS)

NOTIFICATION

Delhi, the 16th March, 2024

F.14 (92)/LA-2024/ala1/77-86.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 15th March, 2024 and is hereby published for general information.

“THE DELHI APPROPRIATION (No. 2) ACT, 2024”

(DELHI ACT No. 03 OF 2024)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 09th March, 2024).

[16th March, 2024]

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2024-2025.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-Fifth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

Issue of `76059,78,28,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2024-2025.

Appropriation.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No. 2) Act, 2024.
2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of **Rupees seventy six thousand fifty nine crore seventy eight lakh twenty eight thousand only** towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2024-2025 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.
3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

SCHEDULE
(See sections 2 and 3)

(₹ In thousand)

SUMS NOT EXCEEDING					
Demand No.	Services and Purposes		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
I	II		III	IV	V
1	Legislative Assembly	Revenue	515700	15800	531500
		Capital	273500	0	273500
2	General Administration	Revenue	6093630	294900	6388530
		Capital	99170	20400	119570
3	Administration of Justice	Revenue	22804104	5994201	28798305
		Capital	2715014	242095	2957109
4	Finance	Revenue	3319000	1100	3320100
		Capital	782500	0	782500
5	Home	Revenue	11004155	6500	11010655
		Capital	1406365	0	1406365
6	Education	Revenue	160564075	50500	160614575
		Capital	1014725	0	1014725
7	Medical and Public Health	Revenue	76308831	92015	76400846
		Capital	2572854	0	2572854
8	Social Welfare	Revenue	111860850	29200	111890050
		Capital	7929650	0	7929650
9	Industries	Revenue	3606950	300	3607250
		Capital	154450	0	154450
10	Development	Revenue	39168725	2320	39171045
		Capital	10331869	57000	10388869
11	Urban Development and Public Works	Revenue	141281000	600	141281600
		Capital	74136580	0	74136580
12	Loans	Capital	13000	0	13000
13	Pensions	Revenue	30000	0	30000
15	Public Debt	Revenue	0	26660900	26660900
		Capital	0	49143300	49143300
	Total		677986697	82611131	760597828

MANMEET SINGH WALIA, Jt. Secy